

एनईआर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For NER

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1779 | 1830 | 1784 | 5 | 46 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1742 | 1793 | 1759 | 16 | 35 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1742 | 1793 | 1727 | 15 | 66 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1707 | 1757 | 1704 | 3 | 53 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1675 | 1725 | 1666 | 9 | 59 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1648 | 1697 | 1631 | 17 | 66 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1622 | 1671 | 1614 | 9 | 58 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1600 | 1649 | 1593 | 8 | 56 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1581 | 1571 | 1570 | 11 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1564 | 1554 | 1558 | 7 | 4 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1546 | 1537 | 1551 | 4 | 14 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1532 | 1522 | 1536 | 4 | 14 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1520 | 1510 | 1528 | 8 | 18 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1514 | 1505 | 1519 | 5 | 14 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1509 | 1500 | 1514 | 5 | 14 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1507 | 1498 | 1519 | 11 | 20 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1506 | 1497 | 1522 | 16 | 25 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1510 | 1501 | 1526 | 16 | 25 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1521 | 1512 | 1549 | 27 | 37 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1540 | 1530 | 1550 | 10 | 20 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1561 | 1551 | 1569 | 8 | 19 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1592 | 1581 | 1610 | 18 | 29 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1634 | 1622 | 1651 | 17 | 29 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1694 | 1682 | 1711 | 17 | 29 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1776 | 1762 | 1805 | 29 | 44 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1881 | 1864 | 1935 | 54 | 71 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1999 | 1980 | 2046 | 48 | 67 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 2110 | 2089 | 2146 | 35 | 57 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 2202 | 2179 | 2243 | 42 | 65 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 2276 | 2251 | 2333 | 57 | 82 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 2335 | 2309 | 2398 | 64 | 90 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 2377 | 2350 | 2447 | 70 | 96 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 2393 | 2445 | 2463 | 70 | 18 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 2398 | 2450 | 2476 | 78 | 26 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 2397 | 2449 | 2469 | 72 | 21 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 2397 | 2449 | 2447 | 49 | 2 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 2386 | 2438 | 2414 | 27 | 24 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 2357 | 2408 | 2370 | 13 | 38 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 2322 | 2373 | 2334 | 12 | 39 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 2287 | 2337 | 2283 | 4 | 55 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 2263 | 2313 | 2236 | 28 | 78 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 2245 | 2295 | 2232 | 13 | 63 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 2230 | 2280 | 2185 | 46 | 95 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 2219 | 2269 | 2139 | 80 | 130 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 2206 | 2177 | 2113 | 93 | 65 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 2195 | 2166 | 2088 | 107 | 78 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 2186 | 2157 | 2090 | 96 | 67 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 2182 | 2154 | 2098 | 84 | 56 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 2180 | 2068 | 2083 | 97 | 14 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 2172 | 2061 | 2084 | 88 | 23 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 2163 | 2053 | 2060 | 103 | 7 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 2148 | 2039 | 2057 | 91 | 18 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 2133 | 2025 | 2050 | 83 | 25 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 2113 | 2006 | 2033 | 80 | 27 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 2101 | 1994 | 2030 | 71 | 36 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 2089 | 1984 | 2025 | 64 | 42 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 2079 | 1974 | 2000 | 80 | 26 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 2073 | 1968 | 1981 | 92 | 13 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 2070 | 1966 | 1978 | 92 | 12 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 2076 | 1971 | 1959 | 117 | 12 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 2082 | 1977 | 1980 | 102 | 3 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 2094 | 1988 | 1976 | 119 | 13 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 2113 | 2006 | 1983 | 130 | 23 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 2141 | 2032 | 2035 | 106 | 3 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 2184 | 2073 | 2074 | 110 | 2 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 2250 | 2134 | 2126 | 124 | 8 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 2333 | 2213 | 2205 | 129 | 8 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 2430 | 2304 | 2303 | 127 | 1 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 2535 | 2402 | 2450 | 85 | 47 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 2649 | 2509 | 2608 | 41 | 99 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 2748 | 2603 | 2715 | 33 | 112 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 2809 | 2660 | 2732 | 77 | 72 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 2826 | 2676 | 2715 | 111 | 39 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 2811 | 2662 | 2709 | 103 | 46 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 2785 | 2638 | 2696 | 90 | 58 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 2759 | 2613 | 2670 | 89 | 57 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 2738 | 2593 | 2661 | 76 | 68 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 2724 | 2580 | 2634 | 90 | 54 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 2711 | 2568 | 2615 | 97 | 47 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 2698 | 2556 | 2604 | 95 | 48 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 2674 | 2533 | 2575 | 99 | 42 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 2644 | 2505 | 2559 | 85 | 54 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 2609 | 2472 | 2520 | 90 | 48 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 2573 | 2438 | 2491 | 83 | 52 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 2527 | 2395 | 2443 | 84 | 48 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 2469 | 2340 | 2392 | 77 | 52 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 2404 | 2280 | 2331 | 74 | 51 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 2338 | 2218 | 2258 | 80 | 41 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 2276 | 2159 | 2189 | 87 | 30 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 2211 | 2098 | 2132 | 79 | 34 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 2143 | 2034 | 2052 | 91 | 18 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 2072 | 1968 | 1996 | 76 | 29 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 2006 | 1905 | 1940 | 66 | 35 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1945 | 1848 | 1896 | 49 | 48 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1890 | 1796 | 1840 | 50 | 44 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1838 | 1748 | 1787 | 51 | 39 |
|----|---------------|------|------|------|----|----|

अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Arunachal Pradesh

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 112 | 115 | 111 | 1 | 4 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 110 | 114 | 109 | 1 | 5 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 110 | 114 | 110 | 0 | 4 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 109 | 112 | 110 | 2 | 2 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 107 | 110 | 112 | 5 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 106 | 110 | 108 | 2 | 1 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 106 | 109 | 110 | 4 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 106 | 109 | 109 | 3 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 105 | 108 | 110 | 5 | 2 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 103 | 106 | 109 | 6 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 101 | 104 | 113 | 11 | 8 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 100 | 103 | 108 | 9 | 5 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 100 | 103 | 108 | 8 | 4 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 100 | 103 | 105 | 5 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 100 | 103 | 106 | 6 | 3 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 100 | 103 | 104 | 4 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 100 | 103 | 107 | 7 | 4 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 101 | 104 | 106 | 6 | 3 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 101 | 104 | 109 | 8 | 5 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 103 | 106 | 113 | 10 | 7 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 105 | 108 | 115 | 10 | 7 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 107 | 110 | 119 | 12 | 9 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 110 | 113 | 122 | 12 | 8 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 113 | 117 | 124 | 11 | 8 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 118 | 121 | 128 | 10 | 6 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 122 | 126 | 135 | 13 | 9 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 128 | 132 | 140 | 12 | 8 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 134 | 139 | 149 | 14 | 10 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 140 | 147 | 153 | 13 | 6 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 145 | 152 | 157 | 12 | 5 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 149 | 156 | 157 | 8 | 1 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 152 | 159 | 162 | 10 | 2 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 153 | 160 | 161 | 8 | 0 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 151 | 159 | 162 | 11 | 3 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 150 | 157 | 162 | 12 | 4 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 147 | 155 | 157 | 10 | 3 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 145 | 152 | 163 | 18 | 11 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 142 | 150 | 157 | 15 | 8 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 141 | 148 | 159 | 18 | 11 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 138 | 145 | 146 | 8 | 1 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 134 | 141 | 146 | 12 | 5 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 131 | 138 | 145 | 14 | 7 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 129 | 135 | 138 | 9 | 3 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 129 | 135 | 137 | 8 | 2 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 129 | 136 | 135 | 6 | 0 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 130 | 137 | 136 | 5 | 1 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 131 | 137 | 137 | 7 | 0 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 131 | 137 | 142 | 12 | 5 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 131 | 138 | 144 | 13 | 6 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 132 | 139 | 146 | 14 | 8 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 135 | 141 | 145 | 11 | 4 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 137 | 144 | 144 | 8 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 139 | 146 | 141 | 1 | 6 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 141 | 148 | 144 | 3 | 4 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 142 | 149 | 145 | 3 | 5 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 143 | 150 | 143 | 0 | 7 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 143 | 150 | 144 | 1 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 142 | 149 | 142 | 0 | 7 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 140 | 148 | 145 | 4 | 3 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 140 | 146 | 136 | 4 | 11 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 140 | 147 | 136 | 3 | 10 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 140 | 148 | 136 | 5 | 12 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 141 | 148 | 134 | 7 | 14 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 142 | 149 | 141 | 1 | 8 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 144 | 148 | 144 | 0 | 4 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 148 | 152 | 151 | 2 | 2 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 153 | 157 | 152 | 1 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 157 | 161 | 159 | 2 | 2 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 161 | 166 | 167 | 6 | 2 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 167 | 171 | 176 | 10 | 5 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 171 | 176 | 183 | 12 | 7 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 175 | 180 | 182 | 7 | 2 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 178 | 183 | 185 | 7 | 2 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 179 | 184 | 189 | 10 | 5 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 180 | 185 | 185 | 5 | 0 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 179 | 184 | 187 | 7 | 2 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 179 | 184 | 188 | 8 | 4 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 178 | 183 | 186 | 8 | 3 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 177 | 182 | 182 | 5 | 0 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 177 | 181 | 178 | 2 | 3 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 175 | 180 | 174 | 1 | 5 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 173 | 177 | 175 | 3 | 2 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 170 | 175 | 170 | 0 | 5 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 168 | 172 | 168 | 1 | 4 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 165 | 170 | 167 | 2 | 2 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 161 | 165 | 166 | 5 | 1 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 157 | 161 | 160 | 3 | 1 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 152 | 157 | 156 | 4 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 148 | 152 | 148 | 0 | 4 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 144 | 148 | 148 | 4 | 0 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 140 | 144 | 135 | 5 | 9 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 136 | 139 | 132 | 3 | 7 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 131 | 135 | 132 | 1 | 3 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 126 | 130 | 135 | 9 | 5 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 122 | 125 | 131 | 9 | 5 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 118 | 122 | 128 | 9 | 6 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|

**असम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Assam**

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 994 | 1029 | 1013 | 19 | 16 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 972 | 1006 | 995 | 23 | 11 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 972 | 1005 | 976 | 5 | 29 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 951 | 983 | 957 | 6 | 26 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 932 | 964 | 936 | 4 | 28 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 915 | 947 | 918 | 3 | 28 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 899 | 930 | 907 | 8 | 23 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 884 | 915 | 901 | 16 | 14 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 872 | 902 | 881 | 9 | 21 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 861 | 891 | 875 | 14 | 16 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 850 | 879 | 867 | 17 | 13 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 840 | 869 | 861 | 22 | 7 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 830 | 858 | 854 | 25 | 4 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 825 | 853 | 852 | 27 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 821 | 849 | 845 | 24 | 4 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 818 | 847 | 847 | 28 | 0 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 817 | 845 | 850 | 33 | 5 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 817 | 845 | 851 | 34 | 6 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 820 | 849 | 862 | 41 | 13 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 826 | 855 | 859 | 33 | 4 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 835 | 864 | 869 | 34 | 6 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 849 | 878 | 887 | 39 | 9 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 868 | 898 | 904 | 36 | 6 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 896 | 927 | 923 | 27 | 4 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 933 | 965 | 959 | 26 | 6 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 982 | 1016 | 1026 | 44 | 10 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1042 | 1078 | 1088 | 46 | 10 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 1099 | 1137 | 1130 | 31 | 7 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 1146 | 1186 | 1171 | 25 | 15 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 1181 | 1222 | 1221 | 40 | 1 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 1209 | 1251 | 1256 | 47 | 5 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 1232 | 1275 | 1281 | 49 | 6 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 1242 | 1285 | 1294 | 52 | 9 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 1247 | 1290 | 1293 | 46 | 3 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 1249 | 1292 | 1281 | 32 | 11 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 1254 | 1297 | 1269 | 16 | 28 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 1254 | 1297 | 1253 | 1 | 44 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 1244 | 1287 | 1239 | 5 | 48 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 1231 | 1274 | 1229 | 2 | 45 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 1219 | 1262 | 1204 | 15 | 57 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 1215 | 1217 | 1186 | 29 | 32 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 1214 | 1217 | 1195 | 19 | 22 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1217 | 1219 | 1172 | 45 | 47 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1219 | 1222 | 1143 | 76 | 79 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1219 | 1173 | 1132 | 86 | 40 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1216 | 1170 | 1113 | 103 | 57 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1215 | 1169 | 1123 | 92 | 46 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1216 | 1170 | 1133 | 83 | 37 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 1215 | 1117 | 1129 | 86 | 12 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1209 | 1111 | 1140 | 69 | 29 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1200 | 1103 | 1132 | 68 | 29 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1187 | 1091 | 1140 | 47 | 49 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1172 | 1077 | 1141 | 31 | 64 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1154 | 1060 | 1119 | 35 | 59 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1141 | 1048 | 1110 | 31 | 62 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1130 | 1038 | 1107 | 22 | 69 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1119 | 1078 | 1083 | 35 | 5 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1111 | 1072 | 1067 | 45 | 5 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1107 | 1068 | 1049 | 58 | 19 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1109 | 1070 | 1033 | 76 | 37 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 1107 | 1036 | 1042 | 65 | 7 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 1108 | 1036 | 1026 | 81 | 10 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 1112 | 1040 | 1018 | 94 | 22 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 1124 | 1051 | 1039 | 84 | 11 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 1145 | 1071 | 1057 | 88 | 13 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 1180 | 1103 | 1085 | 95 | 18 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 1226 | 1146 | 1134 | 92 | 12 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 1280 | 1197 | 1191 | 89 | 6 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 1341 | 1254 | 1278 | 63 | 24 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 1408 | 1317 | 1374 | 34 | 57 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 1465 | 1370 | 1422 | 42 | 52 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 1498 | 1401 | 1424 | 74 | 23 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 1504 | 1407 | 1415 | 89 | 8 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 1498 | 1401 | 1416 | 82 | 15 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 1489 | 1393 | 1415 | 75 | 22 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 1482 | 1386 | 1405 | 78 | 18 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 1476 | 1380 | 1406 | 69 | 26 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 1472 | 1377 | 1394 | 78 | 17 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 1468 | 1373 | 1392 | 76 | 19 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 1464 | 1369 | 1394 | 70 | 25 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 1454 | 1360 | 1389 | 65 | 29 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 1443 | 1349 | 1385 | 58 | 35 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 1428 | 1335 | 1365 | 63 | 30 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 1410 | 1318 | 1354 | 56 | 36 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 1385 | 1295 | 1330 | 55 | 35 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 1354 | 1266 | 1305 | 49 | 39 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 1321 | 1235 | 1275 | 46 | 40 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 1289 | 1206 | 1241 | 48 | 35 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 1263 | 1181 | 1214 | 50 | 32 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1235 | 1155 | 1191 | 44 | 36 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1203 | 1126 | 1161 | 42 | 36 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1167 | 1091 | 1138 | 29 | 47 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1132 | 1092 | 1093 | 38 | 2 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1100 | 1061 | 1061 | 39 | 0 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1068 | 1030 | 1028 | 40 | 2 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1038 | 1001 | 1000 | 38 | 1 |
|----|---------------|------|------|------|----|---|

**माणिपुर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Manipur**

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 107 | 105 | 103 | 4 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 102 | 101 | 102 | 0 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 103 | 102 | 100 | 3 | 2 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 101 | 100 | 100 | 1 | 0 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 100 | 99 | 100 | 0 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 99 | 98 | 93 | 7 | 5 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 98 | 97 | 91 | 7 | 6 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 98 | 96 | 91 | 6 | 5 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 97 | 96 | 91 | 6 | 5 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 97 | 95 | 90 | 6 | 5 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 96 | 95 | 90 | 6 | 5 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 96 | 95 | 90 | 5 | 4 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 96 | 93 | 91 | 5 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 96 | 93 | 91 | 4 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 96 | 93 | 91 | 4 | 2 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 96 | 93 | 92 | 4 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 97 | 95 | 93 | 4 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 99 | 96 | 97 | 3 | 0 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 102 | 99 | 99 | 3 | 0 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 106 | 103 | 103 | 3 | 0 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 112 | 109 | 112 | 0 | 3 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 120 | 116 | 118 | 1 | 2 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 129 | 125 | 127 | 2 | 2 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 140 | 136 | 144 | 3 | 7 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 155 | 150 | 165 | 10 | 15 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 172 | 167 | 184 | 12 | 17 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 189 | 184 | 197 | 9 | 14 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 203 | 198 | 207 | 3 | 9 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 211 | 209 | 216 | 5 | 7 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 215 | 213 | 219 | 4 | 7 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 215 | 213 | 221 | 6 | 8 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 213 | 211 | 221 | 7 | 10 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 209 | 206 | 220 | 11 | 13 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 206 | 204 | 217 | 11 | 14 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 205 | 203 | 212 | 7 | 9 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 206 | 204 | 211 | 4 | 7 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 204 | 202 | 206 | 2 | 4 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 199 | 197 | 202 | 4 | 6 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 192 | 190 | 194 | 2 | 4 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 185 | 183 | 191 | 6 | 8 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 181 | 179 | 186 | 4 | 6 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 179 | 177 | 180 | 2 | 4 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 177 | 175 | 171 | 6 | 4 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 175 | 173 | 169 | 6 | 4 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 172 | 170 | 167 | 4 | 3 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 167 | 165 | 161 | 6 | 4 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 161 | 159 | 147 | 14 | 12 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 156 | 154 | 148 | 8 | 6 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 152 | 150 | 142 | 10 | 9 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 150 | 148 | 139 | 10 | 9 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 148 | 146 | 131 | 17 | 15 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 145 | 143 | 126 | 19 | 17 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 142 | 137 | 122 | 21 | 16 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 141 | 136 | 118 | 23 | 18 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 140 | 135 | 117 | 23 | 18 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 141 | 136 | 119 | 22 | 17 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 141 | 131 | 120 | 21 | 11 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 143 | 132 | 118 | 24 | 13 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 144 | 133 | 121 | 23 | 12 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 146 | 135 | 124 | 21 | 10 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 149 | 133 | 133 | 16 | 0 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 153 | 137 | 136 | 17 | 1 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 158 | 141 | 137 | 21 | 4 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 163 | 146 | 141 | 22 | 5 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 169 | 151 | 153 | 16 | 3 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 177 | 158 | 160 | 17 | 2 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 185 | 165 | 168 | 17 | 3 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 195 | 175 | 182 | 13 | 8 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 208 | 186 | 200 | 8 | 14 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 222 | 198 | 221 | 1 | 22 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 233 | 208 | 238 | 5 | 30 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 240 | 214 | 245 | 5 | 31 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 241 | 220 | 241 | 0 | 20 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 238 | 217 | 237 | 0 | 20 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 232 | 212 | 231 | 1 | 19 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 226 | 206 | 225 | 1 | 18 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 220 | 207 | 223 | 3 | 16 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 215 | 203 | 215 | 1 | 12 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 212 | 199 | 208 | 4 | 9 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 208 | 196 | 206 | 2 | 10 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 201 | 193 | 188 | 13 | 5 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 194 | 186 | 185 | 9 | 2 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 187 | 180 | 180 | 7 | 1 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 183 | 176 | 176 | 7 | 1 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 178 | 171 | 169 | 9 | 1 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 171 | 164 | 159 | 12 | 5 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 164 | 157 | 154 | 9 | 3 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 156 | 149 | 142 | 14 | 8 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 147 | 141 | 137 | 10 | 4 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 139 | 134 | 132 | 7 | 1 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 132 | 126 | 122 | 9 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 125 | 120 | 117 | 8 | 3 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 119 | 115 | 113 | 6 | 1 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 115 | 110 | 111 | 4 | 1 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 112 | 107 | 109 | 3 | 2 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 109 | 105 | 104 | 5 | 1 |

**मेघालय के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Meghalaya**

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 235 | 246 | 225 | 10 | 21 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 232 | 242 | 222 | 10 | 21 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 232 | 242 | 217 | 15 | 26 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 228 | 239 | 216 | 12 | 23 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 225 | 228 | 207 | 18 | 22 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 222 | 225 | 203 | 18 | 22 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 219 | 223 | 203 | 16 | 19 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 216 | 220 | 199 | 17 | 21 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 214 | 211 | 195 | 20 | 17 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 213 | 210 | 193 | 20 | 17 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 211 | 208 | 196 | 15 | 12 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 210 | 207 | 192 | 17 | 15 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 208 | 201 | 189 | 19 | 11 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 208 | 200 | 188 | 20 | 12 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 206 | 199 | 190 | 16 | 8 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 206 | 198 | 188 | 17 | 10 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 205 | 194 | 187 | 18 | 7 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 205 | 194 | 187 | 19 | 8 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 206 | 195 | 192 | 14 | 3 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 208 | 197 | 190 | 18 | 7 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 209 | 198 | 195 | 14 | 3 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 211 | 199 | 200 | 11 | 0 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 214 | 202 | 203 | 11 | 1 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 220 | 207 | 208 | 11 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 228 | 214 | 216 | 12 | 1 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 239 | 224 | 228 | 11 | 4 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 251 | 235 | 238 | 13 | 3 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 262 | 245 | 256 | 7 | 11 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 275 | 256 | 274 | 1 | 18 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 289 | 268 | 281 | 7 | 13 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 302 | 279 | 291 | 11 | 12 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 310 | 287 | 296 | 14 | 9 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 314 | 290 | 298 | 16 | 8 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 315 | 291 | 298 | 17 | 7 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 314 | 290 | 301 | 13 | 11 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 313 | 289 | 301 | 12 | 12 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 310 | 287 | 300 | 11 | 13 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 307 | 284 | 293 | 14 | 9 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 303 | 280 | 290 | 13 | 10 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 298 | 276 | 282 | 16 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 294 | 272 | 280 | 14 | 8 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 291 | 270 | 280 | 11 | 10 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 287 | 267 | 279 | 8 | 13 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 285 | 265 | 273 | 12 | 8 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 282 | 262 | 267 | 15 | 5 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 280 | 260 | 263 | 17 | 3 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 277 | 258 | 267 | 10 | 9 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 274 | 255 | 262 | 12 | 7 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 272 | 253 | 256 | 16 | 3 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 269 | 251 | 247 | 22 | 3 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 268 | 249 | 239 | 28 | 10 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 266 | 248 | 237 | 29 | 11 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 264 | 246 | 237 | 27 | 9 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 262 | 244 | 246 | 16 | 2 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 260 | 242 | 250 | 9 | 8 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 257 | 240 | 249 | 9 | 9 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 256 | 239 | 245 | 11 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 255 | 238 | 248 | 7 | 9 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 255 | 238 | 248 | 7 | 10 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 255 | 239 | 249 | 6 | 11 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 258 | 240 | 250 | 8 | 9 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 261 | 243 | 254 | 7 | 11 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 264 | 246 | 256 | 8 | 10 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 269 | 250 | 259 | 10 | 8 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 276 | 257 | 261 | 14 | 5 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 283 | 263 | 268 | 15 | 5 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 291 | 270 | 278 | 13 | 8 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 299 | 277 | 283 | 15 | 7 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 308 | 285 | 294 | 14 | 9 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 318 | 294 | 305 | 13 | 11 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 329 | 303 | 322 | 7 | 18 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 338 | 312 | 327 | 11 | 16 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 343 | 316 | 332 | 11 | 17 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 344 | 316 | 333 | 11 | 16 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 341 | 314 | 332 | 9 | 18 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 338 | 311 | 327 | 10 | 16 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 335 | 313 | 325 | 10 | 12 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 332 | 311 | 326 | 6 | 15 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 330 | 309 | 323 | 7 | 14 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 328 | 307 | 319 | 9 | 12 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 325 | 304 | 314 | 11 | 10 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 322 | 302 | 314 | 8 | 12 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 319 | 299 | 312 | 6 | 13 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 316 | 296 | 309 | 6 | 13 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 311 | 292 | 304 | 7 | 12 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 305 | 287 | 298 | 7 | 12 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 299 | 281 | 292 | 7 | 11 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 292 | 275 | 286 | 6 | 11 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 284 | 268 | 275 | 9 | 7 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 276 | 261 | 264 | 12 | 3 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 269 | 254 | 254 | 15 | 0 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 260 | 246 | 244 | 16 | 2 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 252 | 239 | 245 | 7 | 6 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 244 | 232 | 241 | 3 | 9 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 236 | 225 | 233 | 4 | 8 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 229 | 219 | 227 | 3 | 8 |

मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Mizoram

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 61 | 68 | 61 | 0 | 7 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 58 | 65 | 58 | 0 | 7 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 58 | 65 | 55 | 3 | 10 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 55 | 62 | 54 | 2 | 9 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 53 | 57 | 52 | 1 | 5 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 50 | 55 | 51 | 0 | 4 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 49 | 53 | 49 | 0 | 5 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 47 | 52 | 46 | 1 | 6 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 46 | 49 | 46 | 0 | 3 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 45 | 48 | 45 | 0 | 2 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 44 | 47 | 44 | 0 | 3 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 44 | 47 | 43 | 0 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 43 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 42 | 44 | 43 | 1 | 1 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 42 | 44 | 43 | 1 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 42 | 44 | 43 | 1 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 42 | 44 | 43 | 2 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 42 | 44 | 43 | 1 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 42 | 44 | 41 | 1 | 3 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 42 | 44 | 41 | 1 | 4 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 43 | 45 | 42 | 2 | 3 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 45 | 47 | 44 | 2 | 3 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 48 | 49 | 47 | 1 | 3 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 52 | 53 | 51 | 1 | 2 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 65 | 65 | 69 | 4 | 4 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 75 | 74 | 80 | 5 | 6 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 85 | 83 | 90 | 6 | 8 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 94 | 93 | 97 | 3 | 4 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 102 | 100 | 109 | 7 | 9 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 108 | 105 | 115 | 7 | 10 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 112 | 109 | 118 | 6 | 9 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 114 | 113 | 120 | 6 | 7 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 114 | 113 | 118 | 4 | 5 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 113 | 112 | 115 | 2 | 3 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 110 | 109 | 110 | 1 | 1 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 107 | 106 | 104 | 3 | 3 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 103 | 103 | 98 | 5 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 99 | 99 | 88 | 11 | 11 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 95 | 96 | 81 | 14 | 15 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 91 | 90 | 73 | 18 | 17 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 88 | 87 | 68 | 19 | 18 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 84 | 83 | 65 | 19 | 18 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 81 | 80 | 65 | 16 | 16 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 79 | 73 | 65 | 14 | 8 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 78 | 73 | 65 | 13 | 8 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 77 | 72 | 66 | 11 | 6 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 78 | 73 | 69 | 9 | 4 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 78 | 69 | 72 | 6 | 3 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 78 | 70 | 72 | 6 | 2 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 78 | 70 | 72 | 6 | 3 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 79 | 70 | 71 | 8 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 80 | 71 | 75 | 4 | 4 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 81 | 72 | 75 | 5 | 4 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 82 | 73 | 75 | 7 | 2 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 84 | 74 | 77 | 7 | 3 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 85 | 75 | 79 | 6 | 4 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 88 | 77 | 82 | 5 | 5 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 90 | 79 | 85 | 5 | 6 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 93 | 82 | 90 | 3 | 8 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 97 | 86 | 96 | 1 | 10 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 102 | 90 | 99 | 3 | 9 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 107 | 95 | 103 | 4 | 9 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 112 | 99 | 108 | 4 | 9 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 116 | 105 | 113 | 3 | 8 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 120 | 108 | 114 | 6 | 5 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 124 | 112 | 117 | 8 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 128 | 115 | 118 | 11 | 2 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 132 | 120 | 120 | 12 | 0 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 135 | 123 | 121 | 14 | 2 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 137 | 125 | 124 | 13 | 1 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 137 | 125 | 124 | 14 | 2 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 137 | 125 | 122 | 15 | 3 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 136 | 124 | 121 | 15 | 3 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 134 | 122 | 118 | 16 | 4 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 132 | 120 | 115 | 16 | 5 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 130 | 119 | 113 | 17 | 5 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 128 | 117 | 113 | 16 | 5 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 127 | 116 | 112 | 15 | 4 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 125 | 114 | 112 | 13 | 2 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 123 | 113 | 112 | 11 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 121 | 111 | 111 | 9 | 1 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 118 | 108 | 110 | 8 | 1 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 115 | 106 | 106 | 9 | 0 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 112 | 103 | 104 | 9 | 0 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 109 | 100 | 99 | 9 | 1 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 104 | 97 | 95 | 9 | 1 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 100 | 92 | 90 | 9 | 2 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 94 | 88 | 85 | 9 | 3 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 89 | 83 | 80 | 9 | 3 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 83 | 78 | 74 | 9 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 78 | 73 | 69 | 8 | 4 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 72 | 69 | 65 | 7 | 4 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 94 | 23:15 - 23:30 | 68 | 65 | 62 | 6 | 3 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 63 | 61 | 59 | 4 | 2 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 59 | 57 | 56 | 4 | 2 |

नागालैंड के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Nagaland

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 76 | 70 | 68 | 8 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 75 | 70 | 71 | 4 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 75 | 70 | 72 | 3 | 2 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 74 | 69 | 73 | 1 | 4 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 73 | 67 | 71 | 1 | 4 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 71 | 66 | 70 | 1 | 4 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 70 | 65 | 69 | 1 | 4 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 69 | 64 | 68 | 1 | 4 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 68 | 64 | 67 | 1 | 3 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 68 | 64 | 67 | 1 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 67 | 64 | 66 | 1 | 3 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 67 | 64 | 66 | 1 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 67 | 64 | 66 | 1 | 3 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 67 | 64 | 66 | 2 | 2 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 67 | 64 | 65 | 2 | 2 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 68 | 64 | 66 | 2 | 2 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 69 | 65 | 67 | 2 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 71 | 67 | 69 | 2 | 2 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 73 | 69 | 71 | 2 | 3 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 75 | 71 | 73 | 3 | 1 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 78 | 74 | 62 | 17 | 12 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 82 | 78 | 64 | 18 | 13 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 88 | 83 | 70 | 18 | 13 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 96 | 91 | 79 | 17 | 12 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 105 | 99 | 94 | 11 | 5 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 114 | 108 | 102 | 12 | 6 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 120 | 114 | 100 | 21 | 14 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 124 | 117 | 101 | 23 | 16 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 123 | 112 | 106 | 17 | 6 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 122 | 111 | 111 | 10 | 1 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 118 | 108 | 115 | 3 | 7 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 116 | 105 | 115 | 1 | 10 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 114 | 106 | 110 | 4 | 4 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 113 | 105 | 130 | 17 | 25 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 112 | 104 | 140 | 27 | 35 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 111 | 104 | 139 | 27 | 35 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 110 | 107 | 133 | 23 | 26 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 109 | 106 | 126 | 17 | 20 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 107 | 104 | 127 | 20 | 23 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 105 | 102 | 130 | 24 | 27 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 105 | 108 | 118 | 14 | 10 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 102 | 106 | 116 | 13 | 10 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 100 | 103 | 114 | 14 | 11 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 96 | 99 | 112 | 16 | 13 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 93 | 100 | 110 | 17 | 10 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 91 | 98 | 107 | 15 | 9 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 91 | 97 | 110 | 19 | 13 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 91 | 98 | 104 | 13 | 6 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 92 | 101 | 101 | 9 | 1 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 92 | 102 | 99 | 7 | 3 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 92 | 101 | 95 | 3 | 6 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 92 | 102 | 98 | 6 | 4 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 93 | 101 | 98 | 6 | 2 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 95 | 103 | 99 | 4 | 4 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 98 | 106 | 105 | 7 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 100 | 109 | 105 | 5 | 4 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 104 | 113 | 109 | 5 | 4 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 107 | 116 | 109 | 1 | 8 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 111 | 120 | 114 | 4 | 6 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 114 | 124 | 113 | 2 | 11 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 117 | 125 | 114 | 2 | 10 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 118 | 126 | 119 | 1 | 7 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 120 | 128 | 126 | 6 | 2 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 122 | 130 | 134 | 13 | 4 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 125 | 135 | 132 | 7 | 4 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 128 | 139 | 131 | 3 | 9 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 134 | 146 | 134 | 0 | 12 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 139 | 151 | 141 | 2 | 10 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 143 | 153 | 144 | 1 | 9 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 145 | 155 | 143 | 2 | 13 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 147 | 157 | 142 | 4 | 15 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 146 | 156 | 139 | 7 | 17 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 145 | 151 | 135 | 9 | 15 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 140 | 146 | 132 | 8 | 14 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 135 | 141 | 131 | 4 | 10 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 130 | 136 | 133 | 3 | 3 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 127 | 129 | 129 | 1 | 0 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 126 | 128 | 125 | 1 | 3 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 125 | 127 | 122 | 4 | 5 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 126 | 127 | 119 | 6 | 8 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 125 | 126 | 122 | 3 | 5 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 122 | 123 | 115 | 6 | 8 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 118 | 120 | 111 | 7 | 9 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 116 | 117 | 106 | 9 | 11 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 114 | 114 | 103 | 12 | 11 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 111 | 110 | 103 | 8 | 7 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 107 | 106 | 99 | 8 | 7 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 102 | 101 | 93 | 9 | 8 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 98 | 95 | 89 | 10 | 7 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 95 | 92 | 84 | 11 | 8 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 90 | 88 | 80 | 10 | 7 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 87 | 84 | 77 | 9 | 7 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 84 | 79 | 75 | 9 | 4 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 81 | 77 | 73 | 8 | 3 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 79 | 74 | 71 | 7 | 3 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 76 | 72 | 70 | 7 | 2 |

त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Tripura

दिनांक/Date: 2/2/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 194 | 205 | 203 | 9 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 193 | 203 | 202 | 10 | 0 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 192 | 202 | 196 | 4 | 6 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 189 | 199 | 194 | 5 | 5 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 186 | 196 | 189 | 2 | 8 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 184 | 193 | 187 | 4 | 6 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 182 | 192 | 184 | 2 | 7 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 180 | 190 | 179 | 2 | 11 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 180 | 189 | 181 | 1 | 9 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 178 | 188 | 178 | 0 | 9 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 177 | 186 | 175 | 2 | 11 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 176 | 185 | 174 | 2 | 11 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 175 | 182 | 177 | 1 | 5 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 176 | 183 | 175 | 2 | 8 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 177 | 184 | 172 | 5 | 11 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 177 | 184 | 178 | 1 | 6 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 176 | 180 | 175 | 1 | 4 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 176 | 180 | 174 | 2 | 6 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 176 | 180 | 174 | 2 | 6 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 179 | 182 | 172 | 6 | 10 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 179 | 182 | 175 | 3 | 7 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 178 | 182 | 178 | 1 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 177 | 180 | 179 | 2 | 1 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 177 | 181 | 182 | 4 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 180 | 184 | 186 | 6 | 2 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 186 | 190 | 192 | 5 | 2 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 193 | 197 | 203 | 10 | 6 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 202 | 206 | 214 | 12 | 8 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 211 | 216 | 227 | 15 | 11 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 222 | 227 | 234 | 12 | 7 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 232 | 237 | 243 | 10 | 6 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 242 | 246 | 254 | 13 | 8 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 248 | 253 | 260 | 13 | 8 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 252 | 257 | 258 | 6 | 1 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 254 | 259 | 259 | 5 | 0 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 256 | 262 | 260 | 3 | 2 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 256 | 261 | 256 | 1 | 6 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 253 | 258 | 254 | 0 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 249 | 254 | 247 | 2 | 7 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 246 | 251 | 249 | 3 | 2 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 243 | 248 | 247 | 4 | 1 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 240 | 245 | 247 | 7 | 2 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 238 | 243 | 246 | 8 | 3 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 234 | 239 | 241 | 6 | 2 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 232 | 236 | 235 | 3 | 2 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 232 | 236 | 243 | 11 | 7 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 233 | 238 | 239 | 6 | 1 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 236 | 241 | 240 | 3 | 1 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 240 | 245 | 240 | 0 | 5 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 242 | 247 | 241 | 1 | 6 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 243 | 248 | 245 | 2 | 3 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 243 | 247 | 240 | 2 | 7 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 242 | 247 | 235 | 7 | 12 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 240 | 245 | 232 | 9 | 13 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 238 | 242 | 228 | 10 | 15 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 234 | 239 | 225 | 9 | 14 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 231 | 236 | 220 | 11 | 16 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 227 | 232 | 215 | 12 | 16 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 223 | 228 | 216 | 7 | 12 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 219 | 223 | 214 | 5 | 10 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 215 | 216 | 208 | 7 | 7 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 212 | 213 | 206 | 7 | 7 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 211 | 211 | 209 | 2 | 2 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 210 | 210 | 213 | 3 | 3 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 210 | 210 | 213 | 3 | 3 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 214 | 214 | 218 | 5 | 4 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 221 | 222 | 222 | 1 | 1 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 231 | 232 | 228 | 3 | 3 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 242 | 242 | 246 | 4 | 4 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 254 | 254 | 268 | 14 | 14 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 266 | 266 | 284 | 18 | 18 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 275 | 275 | 291 | 16 | 16 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 278 | 279 | 284 | 6 | 5 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 277 | 278 | 281 | 4 | 3 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 274 | 275 | 284 | 9 | 9 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 272 | 272 | 278 | 6 | 5 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 271 | 271 | 277 | 7 | 6 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 272 | 272 | 276 | 4 | 4 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 272 | 272 | 275 | 4 | 3 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 271 | 272 | 275 | 3 | 3 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 271 | 271 | 276 | 5 | 5 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 271 | 271 | 274 | 3 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 269 | 269 | 271 | 2 | 2 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 266 | 267 | 270 | 4 | 4 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 262 | 262 | 266 | 4 | 3 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 258 | 258 | 261 | 3 | 3 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 253 | 253 | 255 | 2 | 2 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 247 | 248 | 250 | 2 | 2 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 241 | 241 | 242 | 1 | 1 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 233 | 234 | 234 | 0 | 0 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 226 | 226 | 225 | 1 | 1 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 220 | 220 | 218 | 1 | 2 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 212 | 212 | 214 | 2 | 2 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 210 | 210 | 209 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 208 | 208 | 203 | 4 | 5 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|